



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 9, 2004—अक्टूबर 15, 2004 (आश्विन 17, 1926)  
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 9, 2004—OCTOBER 15, 2004 (ASVINA 17, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

#### संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 23 अगस्त 2004

सं. ए-19014/6/88-प्रशा.-1--दिल्ली नगर निगम में निदेशक (कार्मिक) के रूप में प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावासन के परिणामस्वरूप श्री कृष्ण लाल, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ने आयोग के कार्यालय में अवर सचिव के रूप में 23.08.2004 के अपराह्न से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. आनंदन

अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 26 अगस्त 2004

सं. ए-19014/3/2000-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री प्रवीण श्रीवास्तव, भा.सां.से. (83) को 25.8.2004 से उनकी प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 27.08.2005 तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उनके

द्वारा धारित उप सचिव के पद को वैयक्तिक मूल्यांकन के तौर पर 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में निदेशक स्तर पर पुनः पदनामित करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में संयुक्त सचिव (निदेशक स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन

अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 30 अगस्त 2004

सं. ए-19014/7/04-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, कृ. कल्पना राजसिंह, आई.पी.एस. (92) को रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में संघ लोक सेवा आयोग में दिनांक 30 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. आनंदन

अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं. ए-32013/1/99-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री प्रेम प्रकाश, के.स. आशु.से. को सं.लो.से.आ. के संवर्ग में तदर्थ आधार पर 01.09.2004 से आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री प्रेम प्रकाश की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ प्रकृति की है और उन्हें अनिश्चित रूप से पद पर बने रहने अथवा के.स.आशु.से. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का कोई हक नहीं होगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 अगस्त, 2004 के का.ज्ञा.सं. 5/15/2003-सी एस-II के अनुसरण में जारी किया जाता है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अगस्त 2004

सं. डीपी/पर्स.1/2004/0069/3/19/99--श्रीमती सीमा अग्रवाल, भा. पु.सेवा (तमिलनाडु : 1990), पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं, समय-पूर्व प्रत्यावर्तन पर, 4 अगस्त, 2004 अपराह्न से तमिलनाडु सरकार को वापस सौंप दी गई हैं ताकि वह अपने मूल कांडर में पदोन्नति पा सकें।

एस.डी. वैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2004

सं. 2/2/04-प्रशासन/5064--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा नवोदय विद्यालय समिति, पटना के निजी सहायक श्री के.वी. लोहिदक्शन, को आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 12.08.2004 (पूर्वाह्न) से 08.09.2004 (अपराह्न) तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री लोहिदक्शन को निदेश दिया जाता है कि वे उप निदेशक (प्रशासन), नवोदय विद्यालय समिति, मुख्य कार्यालय, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली को इयूटी हेतु रिपोर्ट करें।

मांगे लाल  
उप सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. 2/31/04-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव श्री मांगे लाल को उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में स्थापनापन्न आधार पर तदर्थ रूप से

दिनांक 17.09.2004 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री मांगे लाल, उप सचिव की नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

सतविन्दर सिंह  
अवर सचिव (प्रशासन)

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 6 सितम्बर 2004

सं. पी.सात-4/2004-कार्मिक-3--प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप, श्री चन्द्रिका प्रसाद, सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक ने दिनांक 03 अगस्त 2004 (पूर्वाह्न) को प्रशासन/अनुभाग अधिकारी ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल इम्फाल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जोगीन्दर सिंह  
कमान्डेंट (कार्मिक-3)

दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं. पी.सात-4/2004-कार्मिक-3--श्री केशव मूर्ति शर्मा प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का दिनांक 01.09.2004 (पूर्वाह्न) से स्वीच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सेक्टर, के.रि.पु. बल, पटना, बिहार में दिनांक 01.09.2004 (पूर्वाह्न) से प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार का त्याग कर दिया है।

जोगीन्दर सिंह  
कमान्डेंट (कार्मिक-3)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं. ओ.बी.3647/04-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. श्रीमती सुनिता कुमारी को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 31.07.2004 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल, सिन्धी में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं. ई-15014/1/2004/कार्मिक-II/2358--सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमान्डेंटों (कार्य/जेएओ)

के संबंध में परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं और सीधे भर्ती सहायक कमांडेंटों (कार्य.) को संबंधित रैंक में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	रैंक	स.क. के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति की तारीख	परीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की तारीख	स्थायीकरण की तारीख यदि कोई हो	यूनिट
1.	सर्वश्री बी. गुब्ब्यामी	सहायक कमांडेंट/का.	03.03.02	02.03.04	लागू नहीं	टीपीटी तूतीकोरिन.
2.	आर.के. वैश	-वही-	08.03.02	07.03.04	लागू नहीं	कोचीन एयरपोर्ट
3.	सुश्री तपस्या ओबराय (सीएसई-2000)	-वही-	02.09.02	01.09.04	02.09.04	मुंबई एयरपोर्ट
4.	बी.आर. साहू	स.क./जेएओ	16.04.02	15.04.04	लागू नहीं	केओसुब मुख्यालय (आर एंड एस)

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
नई दिल्ली-110002, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं. 168 जी.ई. III/176-98/भाग-II--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :-

सर्वश्री	
1. पी.के. चावला	अधिवार्षिकी दिनांक 31.08.2004 (अपराह)
2. वाई.जे. राव	-यथोक्त-
3. पी.पी. पन्त	-यथोक्त-
4. बी.सी. चक्रवर्ती	-यथोक्त-
5. एम. भट्टाचार्या	-यथोक्त-
6. टी.जी. वाघवा	-यथोक्त-
7. के. गोपालन	स्थैच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक 02.08.2004 (पूर्वाह)

दीपक नारायण  
सहायक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

श्री धिरंजन मजूमदार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.08.2004 (अपराह) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

श. बैहरा  
उप महालेखाकार (प्रशासन)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय  
श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 30 सितम्बर 2004

सं. 5/1/2004-सी.पी.आई.--अगस्त, 2004 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 5 अंक बढ़ कर 522 (पांच सी बाईस) अंक रहा।

आई. एस. नेगी  
उप निदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 सितम्बर 2004

कार्यालय-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल  
कोलकाता-700001, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. प्रशासन-III/पेन/5-2/349--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री बादल चंद्र चक्रवर्ती, उप महालेखाकार,

सं. ए-19018/760/84-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, रायगढ़ में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण), श्री ए.के. ब्रह्मा को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, राऊरकेला में उप निदेशक (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण)

स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 26.07.2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1696/2004-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृशूर में अधीक्षक, श्री पी.वी. बाबुराजन को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, चेन्नई में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 13.09.2004 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/960/89-प्रशा. (राज.)--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) (रसायन), डा. एस.के. शर्मा को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में उक्त कार्यालय में उप निदेशक (रसायन) बिल्कुल तदर्थ आधारित के पद पर दिनांक 16.09.2004 (पूर्वाह) से एक वर्ष की अवधि तक या जब तक नियमित पदधारक प्रतिनियुक्ति से वापस नहीं लौट आता, में से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एस.वि.एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय  
(खान विभाग)  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700 016, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं. 2601/बी/ए-19011(1-एम.बी.एम.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी, कुमारी बावनहून मावथोह को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 03.08.2004 के पूर्वाह से प्रभावित नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अतन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

एस.के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं. 2636/बी/ए-19011(1-एन.जी.टी.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री निबिन जी. टॉम को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 16.08.2004 के पूर्वाह से प्रभावित नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अनन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

एस.के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 2618/बी/ए-19011(1-आर.एम.एल.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री रन्जीत एम.एल. को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 23.08.2004 के पूर्वाह से प्रभावित नियुक्त करते हैं।

एस.के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  
कृते महानिदेशक

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)  
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं. 7-6/2004-प्रशा. प्रथम--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से डॉ. के.एल. गुर्जर को दिनांक 18.08.2004 के अपराह से और आगामी आदेशों तक इस निदेशालय में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में नियमित अस्थायी आधार पर वनस्पति संरक्षण अधिकारी (व.रो. विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

मोहन प्रकाश  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 15 सितम्बर 2004

सं. 20/5(3)/2004-सीसीएस/29--राष्ट्रपति, डा. जी.डी. पंगले, आईडीएस (85), आंतरिक वित्त सलाहकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई को दिनांक 02.09.2004 (अपराह) से भावी आदेश होने

तक, अपनी इयूटियों के अतिरिक्त, श्री एन्थोनी डि सा, आईएस (एमपी : 80) की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में लेटरल स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति के फलस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर सांविधिक कर्तव्यों के निर्वाह हेतु शक्तियों सहित नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के पद की जिम्मेदारियां सौंपते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं. 6(2382)/2004-प्रशा./6603--राष्ट्रपति, श्री एस. कृष्णन, अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 15 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से इसी विभाग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.पी. माधवनकुट्टी  
अवर सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं. 6(2381)/2004-प्रशा./6669--राष्ट्रपति, श्री पी.पी. माधवनकुट्टी, उप स्थापना अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200), भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्रांवे, मुंबई को दिनांक 15 सितम्बर 2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि अथवा भावी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में अवर सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. रवीन्द्रन  
उप सचिव

मुंबई-400 001, दिनांक 24 सितम्बर 2004

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/6682--राष्ट्रपति, इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संप्रदा प्रबंध निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सम्बन्धे उल्लिखित ग्रेड में दिनांक 01.02.2004 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	वेतनमान
1	2	3	4	5
01.	एन.पी. विसपुते	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500
02.	राम सिंह	वैज्ञा. अधि./डी	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500

1	2	3	4	5
03.	एस.के. तरफदार	वैज्ञा. सहा./एफ	वैज्ञा. अधि./ई	रु. 12000-375-16500
04.	एल.पी. केशरी	वैज्ञा. अधि./सी	वैज्ञा. अधि./डी	रु. 10000-325-15200
05.	यादव हरीलाल	वैज्ञा. सहा./ई	वैज्ञा. सहा./एफ	रु. 10000-325-15200
06.	बी.एन. हरीश	वैज्ञा. सहा./बी	वैज्ञा. सहा./सी	रु. 8000-275-13500

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/6683--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी.एच. तंबाखे, वैज्ञानिक अधिकारी/एफ (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) निर्माण सेवा एवं संप्रदा प्रबंध निदेशालय को दिनांक 01.08.2004 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/जी (वेतनमान रु. 16,400-450-20,000/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

#### प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं. केट/प्रशा.-2004/भ-805(अ)/902--राष्ट्रपति, डॉ. बी. के. वधावन, वैज्ञानिक अधिकारी/एच. को पदोन्नति पर अकृष्ट वैज्ञानिक के पदक्रम में रुपये 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त, 2004 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशा.-2004/भ-805(अ)/904--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/एच के पदक्रम में रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त, 2004 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री सी. पी. नकावे	वैज्ञानिक अधिकारी/जी
2.	डॉ. एल. एम. कुकरेजा	वैज्ञानिक अधिकारी/जी
3.	श्री पी. आर. इन्नुरकर	वैज्ञानिक अधिकारी/जी

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. केट/प्रशा.-2004/भ-805(अ)/905--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को पदोन्नति पर वैज्ञानिक अधिकारी/जी के पदक्रम में रुपये 16,400-450-20,000/- के वेतनमान में दिनांक 01 अगस्त, 2004 की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1.	श्री बी. डी. शर्मा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
2.	श्री अनिल रावत	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
3.	डॉ. के. एस. बिन्दा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
4.	डॉ. एस. के. दीक्षित	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
5.	श्री महेन्द्र लाड	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
6.	श्री जी. मूंदड़ा	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
7.	श्री एस. वी. नाखे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
8.	श्री एस. ए. पांडे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
9.	श्री आर. एस. शिंदे	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
10.	श्री पी. श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ
11.	श्री एस. आर. तिवारी	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ

एस. सी. जैन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

#### भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-के/2004/741--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री परिवेश जिनवाल, आशुलिपिक ग्रेड-II, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर को दिनांक 12 अगस्त, 2004 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में, आगामी आदेशों तक भारी पानी संयंत्र (कोट) में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव  
प्रशासन अधिकारी

#### नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 28 सितम्बर 2004

सं. नाईस/का.प्रभ-II/8-2004/1181--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं, ग्रेड 'ई' को इसी इकाई में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता 'एफ' के ग्रेड

में (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रमांक	नाम
	सर्वश्री
01.	ओ. एम. मोहन राव
02.	एम. सत्यनारायण
03.	के. पी. सावंत
04.	वाई. भास्कर राव
05.	के. मुरलीकृष्ण
06.	एन. राजन
07.	वाई. विश्वनाथ
08.	के. शिवशंकर
09.	पी. धर्मा राव
10.	जी. राधाकृष्णा
11.	जी. एन. गणेश
12.	एम. वी. एस. रवि शंकर
13.	जुगल किशोर राउत
14.	अशोक कुमार सोमानी

जी. कोटेश्वर राव  
प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. ए-32013/4/2003-स्था.-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री जे. एस. रावत, प्रचालन निदेशक (तदर्थ आधार पर) को प्रचालन निदेशक के पद पर, 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में, दिनांक 27.07.2004 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

चानन राम  
उपनिदेशक, प्रशासन

#### आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. एफ-301-एडी(एटी)/2004--श्रीमती उषा के. सत्यदेवन, आशुलिपिक ग्रेड-II, भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, (कार्मिक तथा प्रशिक्षण

विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-2), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर बढासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, जोधपुर पीठ, जोधपुर में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 30.08.2004 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

सं. एफ-48-एडी(एटी)/2004--निम्नलिखित कर्मचारियों को, एतद्वारा, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई न्यायपीठों में, दर्शाई गई तिथियों से छः माह की अवधि के लिए अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण में स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पदों पर, नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	न्यायपीठ/पीठें	दिनांक
1.	सर्वश्री आर. एन. लोखंडवाला (अधीक्षक)	पणजी	30.09.2004
2.	एक्का पीटर (कार्यालय अधीक्षक)	दिल्ली	30.09.2004

उपर्युक्त नियुक्तियां तदर्थ आधार पर हैं और यह उन्हें इस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से अथवा उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति हेतु नहीं गिनी जाएगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दलपति फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./8953/5563--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स दलपति फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रतन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./10242/5565--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रतन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अम्बिका मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./10593/5567--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अम्बिका मार्केटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राज कुमार फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./13554/5569--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स राज कुमार फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रिजेन्ट एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./18141/5766--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रिजेन्ट एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खाटुको फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20709/5768--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स खाटुको फाइनेन्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिम्पी डिस्टिलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पनजी गोवा, दिनांक 23 सितम्बर 2004

सं. 56-001263/1089--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रिम्पी डिस्टिलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनी के विषय में।

पांडिचेरी-605011, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं. 1425/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनी

का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम	रजिस्ट्रेशन दिनांक
01.	1425	मैसर्स हेरमेस कन्सल्टिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	24.09.1998

एम. कण्णन  
कम्पनी का रजिस्ट्रार  
पांडिचेरी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं. 14691 से 44022 तक/पी.सी./560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	14691	मैसर्स धरमल्ल फाइनेन्स लिमिटेड
2.	18371	मैसर्स धनुर इन्वेस्टमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
3.	24116	मैसर्स सीवेस कारगो सिस्टम्स इण्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	25044	मैसर्स मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट सर्विसेस (मद्रास) (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	26820	मैसर्स अजय कम्प्यूटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
6.	28087	मैसर्स प्रणव बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
7.	28140	मैसर्स रामचन्द्र राव बीड़ी वर्क्स (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	31365	मैसर्स सन टूलस एण्ड प्लास्टिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड
9.	31427	मैसर्स स्टर्लिंग इन्डीविजुअल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
10.	32700	मैसर्स पेरगान प्रमोटर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
11.	33223	मैसर्स टी. एम. ए. टेक्सटाईल मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड



1	2	3
12.	34059	मैसर्स तबल्या कन्सल्टन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
13.	34402	मैसर्स रोयर एड्स स्टॉक्स (मद्रास) (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	34404	मैसर्स रोयर एड्स स्टॉक्स (इण्डिया) (प्राईवेट) लिमिटेड
15.	34991	मैसर्स ट्रेडिंग मोटर वर्क्स (मद्रास) (प्राईवेट) लिमिटेड
16.	35565	मैसर्स सुम्भरा विनायक फाइनान्शियल सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
17.	35612	मैसर्स कास्मो बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
18.	38656	मैसर्स अक्यूरेट बिजिनेस क्रेडिट लिमिटेड
19.	42541	मैसर्स श्री बल्ली सिलिन्डर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	44022	मैसर्स ब्रिशिट रबर (प्राईवेट) लिमिटेड

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

1	2	3
7.	26238	मैसर्स वेगा कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	27452	मैसर्स ब्याड्स कन्सल्टन्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	28106	मैसर्स बाबुड एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	31254	मैसर्स मैक्सप्रोथ फाइनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
11.	32190	मैसर्स ट्रस्ट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
12.	32546	मैसर्स शिवगामी सेक्युरिटीज लिमिटेड
13.	33763	मैसर्स रियो हाऊसिंग लिमिटेड
14.	37490	मैसर्स चारमिथ चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	37710	मैसर्स चेन्नई मेरी ईआई लिमिटेड
16.	45691	मैसर्स चोरलापर काम प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

-----

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 2004

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं. 19512 से 45691 तक/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	19512	मैसर्स टेक्ना फार्मा प्राईवेट लिमिटेड
2.	19829	मैसर्स जेमिथ ज्वेलर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	20393	मैसर्स ट्रिडेन्ट फेब्रिकेस प्राईवेट लिमिटेड
4.	20677	मैसर्स अम्बादूर श्री लक्ष्मी सास्वथ बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
5.	22824	मैसर्स हेरिटेज सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	23476	मैसर्स प्रम्टलाइन फाइन फारमुलेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	17808	मैसर्स कारमी जनीपकार बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेड
2.	18990	मैसर्स घुनाइटेड प्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	24195	मैसर्स यंग इण्डिया चिट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	26046	मैसर्स ललिथ फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	28140	मैसर्स रामाचन्द्रा राय बीडी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	28920	मैसर्स गोलुडन मेरीन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	30010	मैसर्स ह्यारोरा बेनिफिट फण्ड लिमिटेड

1	2	3
8.	35427	मैसर्स श्री नाना फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	44075	मैसर्स एम. एन. रेप प्राईवेट लिमिटेड

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

चेन्नई, दिनांक 22 सितम्बर 2004

सं. 11871 से 19246 तक/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम,  
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इसी दिन से निम्नलिखित कम्पनियों का  
नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित  
हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	11871	मैसर्स फोर स्टार कॅरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	17575	मैसर्स पेट्रोमट्स लिमिटेड
3.	19246	मैसर्स ऐरोहेड फण्ड मैनेजमेन्ट सर्विसेस कम्पनी लिमिटेड

एस. मीनाक्षी  
सहायक कम्पनी पंजीयक  
तमिलनाडु

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 23rd August 2004

No. A-19014/6/88-Admn.I—Consequent upon his repatriation from deputation as Director (Personnel), Municipal Corporation of Delhi, Sh. Krishan Lal, CSS, has reported for duty in the Commission's Office as Under Secretary w.e.f. the afternoon of 23rd August, 2004.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 26th August 2004

No. A-19014/03/2000-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Pravin Srivastava, ISS (83) Deputy Secretary, UPSC as Joint Secretary (Director Level) in the Union Public Service Commission by re-designating the post of Deputy Secretary held by him to that of Director level in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 as a measure personal to him w.e.f. 25th August, 2004 for the balance period of his deputation, i.e. upto 27th August, 2005 or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 30th August 2004

No. A-19014/07/2004-Admn.I—The President is pleased to appoint Ms. Kalpana Rajsinghot, IPoS (92), as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on central deputation for a period of four years w.e.f. the forenoon of 30th August, 2004 or until further orders, whichever is earlier.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 10th September 2004

No. A-32013/1/99-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Prem Prakash, CSSS to the grade of Senior Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the cadre of UPSC on adhoc basis w.e.f. 01st September, 2004 till further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of Shri Prem Prakash as Senior PPS is purely ad hoc in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Senior PPS of CSSS.

3. This issue in pursuance of the DOPT's O.M. No. 5/15/2003-CS.II dated 23rd August, 2004.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

3-276-91104

## CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 19th August 2004

No. DP/Pers.I/2004/3330/3/19/99—Service of Smt. Seema Agarwal, IPS (TN:1990), Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation have been placed back at the disposal of Government of Tamil Nadu with effect from the afternoon of August 4, 2004 on Pre-mature repatriation to avail promotion in parent cadre.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 8th September 2004

No. 2/2/04-Admn./5064—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri K. V. Lohidakshan, Personal Assistant, Navodaya Vidyalaya Samiti, Patna, as Private Secretary in the Commission on deputation basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 12.08.2004 (F/N) till 08.09.2004 (A/N).

Shri Lohidakshan is hereby directed to report for duty to Deputy Director (Administration), Navodaya Vidyalaya Samiti, Head Office, Indira Gandhi Indira Stadium, New Delhi.

MANGELAL  
Dy. Secy.  
For Central Vigilance Commissioner

New Delhi-110023, the 21st September 2004

No. 2/31/04-Admn./5935—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Mange Lal, Under Secretary as Deputy Secretary in the Commission in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 in officiating capacity on ad hoc basis for a period of 3 months with effect from 17th September, 2004 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri Mange Lal as Deputy Secretary on ad hoc basis is under rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964, as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

SATVINDER SINGH  
Under Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE GENERAL CRPF

New Delhi-110003, the 6th September 2004

No. P. VII-4/2004-Pers-3—Consequent on his promotion to the post of Administrative/Section Officer Shri Chandrika Prasad, Subedar Major/Office Superintendent has taken over charge as Administrative/Section Officer in Addl. DIGP, GC, CRPF, Imphal Office in the forenoon of 3rd August, 2004.

JOGINDRA SINGH  
Commandant (Pers-III)

The 20th September 2004

No. P. VII-4/2004-Pers-3—Consequent on acceptance of his Voluntary retirement w.e.f. 01.09.2004 (FN) from the post of Administrative/Section Officer, Shri Keshav Murti Sharma, had handed over the charge of Administrative/Section Officer in the Office of IGP BS, CRPF, Patna, Bihar from the same date.

JOGINDRA SINGH  
Commandant (Pers-III)

New Delhi-110003, the 14th September 2004

No. O. II-3647/04-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Sunita Kumari as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 31.07.2004 till further order. She is posted to Group Centre, CRPF, Sindri.

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers.I)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 24th September 2004

No. E-15014/1/2004/Pers.II/2358—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants (Exe/JAO) and confirm in the respective rank in respect of directly recruited Assistant Commandant/Exe, as per details given below :—

Sl. No.	Name of Officer	Rank	Date of pro-motion/epptt. as AC	Probation period completed satisfactorily on	Date of confirmation, if any	Unit
S/Shri						
1.	B. Gurusamy	AC/Exe	03.03.02	02.03.04	N.A.	TPT Tuticorin
2.	R.K. Vaish	-do-	08.03.02	07.03.04	N.A.	Cochin Airport
3.	Ms. Tapasya Obhrai (CSB-2000)	-do-	02.09.02	01.09.04	02.09.04	Mumbai Airport
4.	B.R. Sahu	AC/JAO	16.04.02	15.04.04	N.A.	CISF Hqs. (R&S).

Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR  
GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 23rd September 2004

No. 4978-GE-I/176-98 (Vol-II)—The following IA&AS officers have retired from Government Service from the date shown against their names:—

S/Shri		
1. V.K. Chawla	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
2. Y.J. Rao	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
3. P.P. Pant	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
4. B.C. Chakraborty	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
5. M. Bhattacharjee	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
6. T.D. Wadhwa	Retired on superannuation	wef. 31-8-2004 (AN)
7. K. Gopalan	Retired voluntarily	wef. 02.08.2004 (FN)

DEEPAK NARAIN  
Asstt. Comptroller & Auditor Genl.(P)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL  
(AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 16th September 2004

No. Admn. III/Pen/5-2/Vol. IV/348—Shri Badal Chandarg Chakraborty, Dy. Accountant General and Shri Chira Ranjan Majumder, Asstt. Audit Officer of this office retired from services on superannuation on 31-08-2004 (AN).

S/- ILLEGIBLE  
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 30th September 2004

No. 5/1/2004-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982 = 100 has increased by 5 points to stand at 522 (Five hundred & twenty-two) for the month of August, 2004.

I.S. NEGI  
Dy. Director

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 23rd September 2004

No. A-19018/760/84-Admn(G)—The President is pleased to appoint Shri A.K. Brahma, Assistant Director (Grade I)

(Industrial Management and Training), Branch Small Industries Service Institute, Rayagada as Deputy director (Industrial Management and Training) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 in Branch Small Industries Service Institute, Rourkela with effect from the forenoon of 26.07.2004 until further orders.

S.V.N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1696/2004-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri P.V. Baburajan, Superintendent, Small Industries Service Institute, Thrissur as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Regional Testing Centre, Chennai with effect from the forenoon of 13.09.2004 until further orders.

S.V.N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/960/89-Admn(G).—The President is pleased to appoint Dr. S. K. Sharma, Assistant Director (Grade I) (Chemical), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Deputy Director (Chemical) purely on ad-hoc basis with effect from 16.9.2004 (Forenoon) for a period of one year or till the regular incumbent returns from deputation, whichever is earlier under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 10000-325-15200.

S.V.N. PILLAI  
Dy. Dir. (Admn.)

#### KHAN MANTRALAYA

#### GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 22nd September 2004

No. 2601/B/A-19011(1-MBM)/04/19A.—The President is pleased to appoint Ms. M. Bawanhun Mawthoh to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 3.8.2004 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of caste status furnished by the Competent Authority.

S. K. SINHA  
Senior Administration Officer  
for Director General

The 23rd September 2004

No. 2636/B/A-19011(1-NGT)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri Nibin G Tom to the post of Geologist

(Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16.8.2004 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of caste status furnished by the Competent Authority.

S. K. SINHA  
Senior Administration Officer  
for Director General

No. 2618/B/A-19011(1-RML)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri Renjith M. L. to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23.8.2004 until further orders.

S. K. SINHA  
Senior Administration Officer  
for Director General

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

#### (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

#### DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION QUARANTINE AND STORAGE

Faridabad-121001, the 17th September 2004

No. 7-6/2004-Admn.I.—With the approval of the competent authority, Dr. K. L. Gurjar is appointed to the post of Plant Protection Officer (PP) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 18.8.2004 (Afternoon) on regular temporary basis in this Directorate until further orders.

MOHAN PARKASH  
Chief Administrative Officer

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 15th September 2004

No. 20/5(3)2004-CCS/29.—The President is pleased to assign the responsibilities of the post of Controller, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai including powers to exercise the statutory functions to Dr. G. D. Pungle IDAS(85), Internal Financial Advisor, Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as a temporary measure in addition to his own duties with effect from 02.09.2004 (AN) and until further orders vice Shri Anthony de Sa, IAS (MP:80) appointed as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion in the Ministry of Commerce and Industry, on lateral transfer basis.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Mumbai-400001, the 22nd September 2004

No. 6(2369)/2004/Adm/6603.—The President is pleased to appoint Shri S. Krishnan, Under Secretary (scale of pay of

Rs. 10000-325-15200), Department of Atomic Energy, Mumbai, as Officer-on-Special-Duty in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the same Department with effect from the forenoon of September 15, 2004.

P. P. MADHAVANKUTTY  
Under Secy.

Mumbai-400001, the 23rd September 2004

No. 6(2381)/2004/Adm/6669—The President is pleased to appoint Shri P. P. Madhavankutty, Dy. Establishment Officer (scale of pay of Rs. 10000-325-15200) BARC, Trombay, Mumbai as Under Secretary to the Government of India in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in the Department of Atomic Energy, Mumbai with effect from the forenoon of September 15, 2004 for a period of 3 years or until further orders whichever is earlier.

K. RAVEENDRAN  
Dy. Secy.

Mumbai-400001, the 24th September 2004

No. 7/2(1)2004-SUS/6682—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of Construction, Service & Estate Management of this Department, on their promotion to the grade indicated against each w.e.f. 01.02.2004 (FN) in the same unit, until further orders:—

Sl. No.	Name	Present Grade	Grade on Promotion	Scale of pay
S/Shri				
1.	N. P. Vispute	SO/D	SO/E	Rs. 12000-375-16500
2.	Rsm Singh	SO/D	SO/E	Rs. 12000-375-16500
3.	S. K. Tarafdar	SA/F	SO/E	Rs. 12000-375-16500
4.	L. P. Keshari	SO/C	SO/D	Rs. 10000-325-15200
5.	Yadav Harilal	SA/E	SA/F	Rs. 10000-325-15200
6.	B. N. Harish	SO/SB	SO/C	Rs. 8000-275-13500

D. SURENDRAN  
Under Secy.

No. 7/2(1)2004-SUS/6683—The President is pleased to appoint Shri V. H. Tambakhe, Scientific Officer/F (scale of pay of Rs. 14300-400-18300), Directorate of Construction, Services & Estate Management of this Department, on his promotion to the grade of Scientific Officer/G (scale of pay of Rs. 16400-450-20000) w.e.f. 01.08.2004 (FN) in the same unit, until further orders.

D. SURENDRAN  
Under Secy.

## CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 22nd September 2004

No. CAT/2004-Admn/R-805(A)/902—The President of India is pleased to appoint Dr. V. K. Wadhawan, Scientific Officer/H on promotion to the grade Outstanding Scientist in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500 with effect from the forenoon of 01st August, 2004 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

No. CAT/2004-Admn/R-805(A)/904—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officers on promotion to the grade Scientific Officer/H in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 with effect from the forenoon of 01st August, 2004 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	Present Grade
1.	Shri C. P. Navathe	Scientific Officer/G
2.	Dr. L. M. Kukreja	Scientific Officer/G
3.	Shri P. R. Hannurkar	Scientific Officer/G

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

No. CAT/2004-Admn/R-805(A)/905—The President of India is pleased to appoint the following Scientific Officers on promotion to the grade Scientific Officer/G in the scale of pay of Rs. 16400-450-20000 with effect from the forenoon of 01st August, 2004 in an officiating capacity in the Centre for Advanced Technology, Indore until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	Present Grade
1.	Shri V. D. Sharma	Scientific Officer/F
2.	Shri Anil Rawat	Scientific Officer/F
3.	Dr. K. S. Bindra	Scientific Officer/F
4.	Dr. S. K. Dixit	Scientific Officer/F
5.	Shri Mahendra Lad	Scientific Officer/F
6.	Shri G. Mundra	Scientific Officer/F
7.	Shri S. V. Nakhe	Scientific Officer/F
8.	Shri S. A. Pande	Scientific Officer/F
9.	Shri R. S. Shinde	Scientific Officer/F
10.	Shri P. Shrivastava	Scientific Officer/F
11.	Shri S. R. Tiwari	Scientific Officer/F

S. C. JAIN  
Chief Administrative Officer

**HEAVY WATER BOARD**

Mumbai-400094, the 22nd September 2004

No. HWB/R/1(8)-K/2004/741—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Parivesh Jinwal, Steno Gr. II, CAT, Indore to officiate as Assistant Personnel Officer in Heavy Water Plant (Kota) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 from the forenoon of August 12, 2004 until further orders.

D. S. RAO  
Administrative Officer

**NUCLEAR FUEL COMPLEX**

Hyderabad-500062, the 28th September 2004

No. NFC/PAR.II/8-2004/1181—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the Grade of Scientific Officer/Engineer 'F' (Scale of pay Rs. 14300-400-18300) with effect from 01.08.2004 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No. Name

(S/Shri)

1. O. M. Mohan Rao
2. M. Satyanarayana
3. K. P. Sawant
4. Y. Bhasker Rao
5. K. Muralikrishna
6. N. Rajan
7. Y. Vishwanath
8. K. Sivasankar
9. P. Dharma Rao
10. G. Radhakrishna
11. G. N. Ganesha
12. M. V. S. Ravi Shankar
13. Jugal Kishor Rout
14. Ashok Kumar Somani

G. KOTESWARA RAO  
Administrative Officer

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION**

New Delhi-110003, the 21st September 2004

No. A-32013/4/2003-E.II—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission,

the President of India is pleased to appoint Shri J. S. Rawat, Director of Operations (on adhoc basis), on promotion to the post of Director of Operations, on regular basis, in the Office of the Director General of Civil Aviation, Headquarters, New Delhi in the pay scale of Rs. 14300-400-18300 with effect from 27.07.2004 (forenoon) and until further orders.

CHANAN RAM  
Dy. Director of Administration

**INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL**

Mumbai-400020, the 21st September 2004

No. F. 301-Ad(AT)/2004—Smt. Usha K. Sathyadevan, Steno Gr. II, Geological Survey of India, Western Region, Jaipur is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Jodhpur Bench, Jodhpur in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 30.08.2004 (FN) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI  
President

No. F. 48-Ad(AT)/2004—The following officials are hereby appointed to officiate as Assistant Registrars, Income-tax Appellate Tribunal on ad hoc basis in a temporary capacity for a period of six months from the date and in the Benches indicated against each or till the posts are filled up on regular basis whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Benches	Date
	S/Shri		
1.	R. N. Lokhandwala (Superintendent)	Panaji	30.09.2004
2.	Ekka Peter (Office Supdt.)	Delhi	30.09.2004

The above appointments are ad hoc and will not bestow upon them a claim for regular appointment in that grade and the services rendered by them on ad hoc basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
O/O THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dalpati Finance & Leasing Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 16th September 2004

No. 560(5)/LC/SES-8953/5563—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dalpati Finance & Leasing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ratan Spinning & Weaving Mills Ltd.

Kanpur-208001, the 16th September 2004

No. 560(5)/LC/SES-10242/5565—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ratan Spinning & Weaving Mills Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ambika Marketing Company Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 16th September 2004

No. 560(5)/LC/SES-10593/5567—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ambika Marketing Company Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raj Kumar Fuels Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 16th September 2004

No. 560(5)/LC/SES-13554/5569—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raj Kumar Fuels Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regent Agencies Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 21st September 2004

No. 560(5)/LC/SES-18141/5766—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Regent Agencies Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khatuco Finance & Leasing Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 21st September 2004

No. 560(5)/LC/SES-20709/5768—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khatuco Finance & Leasing Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt. Registrar of Companies  
U.P. & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krimpi Distillery Pvt. Ltd.

Panaji, the 23rd September 2004

No. 56/001263/D/560(5)/1089—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krimpi Distillery Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

G. K. PURWAR  
Registrar of Companies  
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hermes Consulting and Services Pvt. Ltd.

Pondicherry-11, the 21st September 2004

No. 1425/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the company M/s. Hermes Consulting and Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

M. KANNAN  
Registrar of Companies  
Pondicherry



In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 16th September 2004

No. 14691 to 44022/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved.

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	14691	M/s. Dharmah Finance Ltd.
2.	18371	M/s. Dhanur Investments Pvt. Ltd.
3.	24116	M/s. Seaways Cargo Systems India Pvt. Ltd.
4.	25044	M/s. Management Development Services (Madras) Pvt. Ltd.
5.	26820	M/s. Ajay Computers Pvt. Ltd.
6.	28087	M/s. Paranev Benefit Fund Ltd.
7.	28140	M/s. Ramachandra Rao Beedi Works Pvt. Ltd.
8.	31365	M/s. Sun Tools & Plastics Pvt. Ltd.
9.	31427	M/s. Sterling Individual Credit Rating Systems Pvt. Ltd.
10.	32700	M/s. Paragon Promoters Pvt. Ltd.
11.	33223	M/s. TMA Textile Mill Pvt. Ltd.
12.	34059	M/s. Tavasya Construction Pvt. Ltd.
13.	34402	M/s. Share Aids Stocks (Madras) Pvt. Ltd.
14.	34404	M/s. Share Aids Stocks (India) Pvt. Ltd.
15.	34991	M/s. Traction Motor Works (Madras) Pvt. Ltd.
16.	35565	M/s. Sundhara Vinayak Financial Services Pvt. Ltd.
17.	35612	M/s. Cosmo Benefit Fund Ltd.
18.	38656	M/s. Accurate Business Credit Ltd.
19.	42541	M/s. Sri Valli Cylinders Pvt. Ltd.
20.	44022	M/s. Srisht Rubber Pvt. Ltd.

S. MBENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 17th September 2004

No. 19512 to 45691/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No. Regn. No. Name of the Company

1.	19512	M/s. Tebma Pharma Pvt. Ltd.
2.	19829	M/s. Zenith Jewellers Pvt. Ltd.
3.	20393	M/s. Trident Fabrics Pvt. Ltd.
4.	20677	M/s. Ambattur Sri Lakshmi Saswatha Benefit Fund Ltd.
5.	22824	M/s. Heritage Systems Pvt. Ltd.
6.	23476	M/s. Frontline Fine Formulations Pvt. Ltd.
7.	26238	M/s. Vega Consultants Pvt. Ltd.
8.	27452	M/s. Choice Confectionery Pvt. Ltd.
9.	28106	M/s. Wadood Exports & Imports Pvt. Ltd.
10.	31254	M/s. Mangrowth Finance & Investment Pvt. Ltd.
11.	32190	M/s. Trust Marketing Pvt. Ltd.
12.	32546	M/s. Sivagami Securities Ltd.
13.	33763	M/s. Rio Housing Ltd.
14.	37490	M/s. Varnith Chits Pvt. Ltd.
15.	37710	M/s. Chennai Marie El Ltd.
16.	45691	M/s. Your Lawyer Com. Pvt. Ltd.

S. MBENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 17th September 2004

No. 17808 to 44075/560(3)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said companies will be dissolved unless cause is shown to the contrary with be struck off the Register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No. Regn. No. Name of the Company

1	2	3
1.	17808	M/s. Kaarani Janopakara Benefit Society Ltd.
2.	18990	M/s. United Graphics Pvt. Ltd.

1	2	3
3.	24195	M/s. Young India Chits Pvt. Ltd.
4.	26046	M/s. Lalith Fabricators Pvt. Ltd.
5.	28140	M/s. Ramachandra Rao Beedi Works Pvt. Ltd.
6.	28920	M/s. Golden Marines Pvt. Ltd.
7.	30010	M/s. Dwaragesh Benefit Fund Ltd.
8.	35427	M/s. Sri Nana Finance & Investments Pvt. Ltd.
9.	44075	M/s. M. N. Wrap Pvt. Ltd.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Chennai, the 22nd September 2004

No. 11871 to 19246/560(5)/2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off the Register and the said companies are dissolved.

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1.	11871	M/s. Four Star Carriers Pvt. Ltd.
2.	17575	M/s. Petronuts Ltd.
3.	19246	M/s. Arrowhead Fund Management Services Company Ltd.

S. MEENAKSHI  
Asstt. Registrar of Companies  
Tamilnadu